

**DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS  
FROM FRUITS AND VEGETABLES (DVAPFV)****Term-End Examination****December, 2016 00003****BPVI-005 : FOOD MICROBIOLOGY***Time : 2 hours**Maximum Marks : 50*

---

*Note : Attempt any five questions. Question no. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.*

---

- |           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Define :</b>                           | <b>10x1=10</b>  |
| (a)       | Perishable foods                          |                 |
| (b)       | Enzymes                                   |                 |
| (c)       | Pasteurization                            |                 |
| (d)       | Mycotoxin                                 |                 |
| (e)       | Leaker                                    |                 |
| (f)       | LTLT                                      |                 |
| (g)       | Exotoxin                                  |                 |
| (h)       | Spoilage                                  |                 |
| (i)       | Putrefaction                              |                 |
| (j)       | Food borne infection                      |                 |
| <b>2.</b> | <b>Write short notes on :</b>             | <b>4+3+3=10</b> |
| (a)       | Botulism                                  |                 |
| (b)       | Standards for water for human consumption |                 |
| (c)       | 12 - D concept                            |                 |

- 3.** (a) Classify foods according to their pH.  $3+3+4=10$   
(b) What are the ways in which water activity in foods can be reduced ?  
(c) Discuss the mechanism of drying of foods.
- 4.** Differentiate between :  $2.5 \times 4 = 10$   
(a) Sterilization and Pasteurization  
(b) Halotolerant and osmotolerant  
(c) Solid state fermentation and extractive fermentation  
(d) Class I and Class II preservatives
- 5.** Give an account of the various mycotoxins  $10$  encountered in foods.
- 6.** (a) What are the factors that determine heat penetration into the container of food ?  $5 \times 2 = 10$   
(b) Give a detailed description of the chemical spoilage encountered in canned foods.
- 7.** What are wines ? How are they classified ?  
Discuss in detail the process of wine manufacture.  $2+3+5=10$
- 8.** (a) Briefly mention about the principles of food preservation.  $5 \times 2 = 10$   
(b) *Clostridium botulinum* is a major threat in canned products - comment.
-

फलों एवं सब्जियों से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा  
( डी.वी.ए.पी.एफ.वी. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2016

बी.पी.वी.आई.-005 : खाद्य सूक्ष्मजैविकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 करना अनिवार्य है।  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

---

1. परिभाषित कीजिए :  $10 \times 1 = 10$

- (a) विकारीय खाद्य पदार्थ
- (b) एंजाइम
- (c) पास्तेरीकरण
- (d) माइक्रोटॉक्सिन
- (e) लीकर
- (f) एल.टी.एल.टी.
- (g) बहिःआविष
- (h) विकृति
- (i) पूयन (सड़न)
- (j) खाद्य जनित संक्रमण

**2. संक्षेप में नोट लिखिए :** **4+3+3=10**

- (a) बोटूलिज़म
- (b) मानव उपभोग हेतु जल संबंधी मानक
- (c) 12 - डी संकल्पना

**3. (a) खाद्य पदार्थों को इनके पी.एच. के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। **3+3+4=10****

- (b) खाद्य पदार्थों में जल क्रिया को किन तरीकों से निम्न किया जा सकता है?
- (c) खाद्य पदार्थों को शुष्कित करने के तरीकों की चर्चा कीजिए।

**4. अंतर स्पष्ट कीजिए : **2.5x4=10****

- (a) निर्जर्माकरण और पास्तेरीकरण
- (b) लवणसह और परासरणसह
- (c) ठोस प्रावस्था किण्वन और निष्कर्षी किण्वन
- (d) वर्ग I और वर्ग II परिक्षक

**5. खाद्य पदार्थों में उत्पन्न विविध माइक्रोऑक्सिनों का ब्यौरा दीजिए। **10****

**6. (a) खाद्य पदार्थों के डिब्बे में ऊष्मा-प्रवेश का निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं? **5x2=10****

**(b) डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में उत्पन्न रासायनिक विकृति का विस्तृत ब्यौरा दीजिए।**

7. मंदिर क्या है? इन्हें कैसे बर्गीकृत किया जाता है? मंदिर बनाने की प्रक्रिया की सविस्तार चर्चा कीजिए।  $2+3+5=10$
8. (a) खाद्य परिक्षण के सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।  
(b) डिब्बाबंद उत्पादों में क्लोसट्रिडियम बोटुलिनम मुख्य चुनौती है - टिप्पणी कीजिए।  $5\times 2=10$
-